

संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में केंद्र सरकार ने [बजट 2024-25](#) में स्वर्ण पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की।

- इसके अलावा, सरकार [साँवरेन गोल्ड बॉण्ड \(SGB\)](#) के भविष्य पर अपने नरिणय को अंतिम रूप देना चाहती है।

भारत में स्वर्ण उद्योग की स्थिति

- भारत में स्वर्ण भंडार:
 - राष्ट्रीय खनजि सूची के अनुसार, वर्ष 2015 तक भारत में स्वर्ण के अयस्क का कुल भंडार/संसाधन 501.83 मिलियन टन होने का अनुमान था।
 - स्वर्ण अयस्क के सबसे बड़े संसाधन बहार (44%) में स्थिति हैं, इसके बाद राजस्थान में (25%), कर्नाटक में (21%), पश्चिम बंगाल में (3%), आंध्र प्रदेश में (3%) तथा झारखंड में (2%) हैं।
 - देश के कुल स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक का लगभग 80% योगदान है। कोलार ज़िले में कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) विश्व की सबसे प्राचीन और गहराई पर मौजूद स्वर्ण की खदानों में से एक है।
- भारत में स्वर्ण आयात:
 - भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है। वर्ष 2023-24 में भारत का स्वर्ण आयात 30% बढ़कर 45.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
 - हालाँकि मार्च, 2024 में स्वर्ण आयात में 53.56% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

साँवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम क्या है?

- लॉन्च:
 - SGB स्कीम नवंबर, 2015 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और घरेलू बचत के एक भाग को, जो सामान्यतः स्वर्ण खरीदने के लिये उपयोग किया जाता है, वित्तीय बचत में नविश करने के लिये प्रोत्साहित करना था।
- नरिगमन:
 - गोल्ड बॉण्ड, सरकारी परतभूत (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
 - ये बॉण्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किये जाते हैं।
 - वे अनुसूचित वाणजियिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, पेमेंट बैंकों एवं कषेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामति डाकघरों तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से खरीद के लिये उपलब्ध हैं।
- पात्रता:
 - ये बॉण्ड स्थानीय व्यक्तियों, हद्दी अवभाजति परिवारों (HUF), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा खरीद के लिये उपलब्ध हैं।
- वशिषताएँ:
 - नरिगम मूल्य: स्वर्ण बॉण्ड का मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) मुंबई द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता (24 कैरेट) के सोने के मूल्य से जुड़ा हुआ है।
 - नविश सीमा: स्वर्ण बॉण्ड को वभिन्न नविशकों के लिये वशिषित सीमा तक एक इकाई (1 ग्राम) के गुणकों में खरीदा जा सकता है।
 - खुदरा (व्यक्तगत) नविशकों एवं हद्दी अवभाजति परिवार (HUF) के लिये प्रत वित्तीय वर्ष अधिकतम सीमा 4 कलोग्राम (4,000 युनिट) है, जबकि ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाओं के लिये प्रत वित्तीय वर्ष 20 कलोग्राम की सीमा है। न्यूनतम नविश की अनुमतता 1 ग्राम सोने/स्वर्ण की है।
 - अवधि: स्वर्ण बॉण्ड की परपिक्वता अवधि आठ वर्ष होती है, जिसमें पहले पाँच वर्षों के बाद नविश से बाहर निकलने का विकल्प होता है।

- **ब्याज दर:** यह योजना 2.5% की नश्चिति वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जो अर्द्ध-वार्षिक रूप से देय है। गोल्ड बॉण्ड पर अर्जति ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर योग्य है।

■ **लाभ:**

- **SGB** का उपयोग ऋण के लिये संपार्श्विकि के रूप में किया जा सकता है।
- **SGB के मोचन पर** व्यक्तियों के लिये **पूँजीगत लाभ कर** से छूट दी गई है।
 - **मोचन से तात्पर्य** जारीकर्त्ता द्वारा **परपिक्रवता पर या उससे पहले बॉण्ड को पुनर्खरीद करने** से है।
 - पूँजीगत लाभ वह लाभ है जो तब अर्जति होता है जब किसी परसिंपत्ति, जैसे स्टॉक, बॉण्ड या रयिल एस्टेट का वक्रिय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है।

■ **SGB में नविश के नुकसान:**

- यह भौतिक स्वर्ण के वपिरीत एक दीर्घकालिक नविश है, जसिं तुरंत बेचा जा सकता है।
- हालाँकि SGB एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम अपेक्षाकृत कम है, जसिसे उन्हें **परपिक्रव होने से पहले बेचना मुश्कलि** हो जाता है।

ग्रीन बॉण्ड:

- **ग्रीन बॉण्ड कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा** वशिष रूप से उन परयोजनाओं को नधिदिने के लिये जारी किये जाते हैं जनिका पर्यावरण या जलवायु से सकारात्मक लाभ होता है तथा नविशकों को नश्चिति आय भुगतान प्रदान करते हैं।
- सरकार वत्तितीय वर्ष 2024-25 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के **संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड** जारी करने की योजना बना रही है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. सरकार की 'संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)' एवं 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)' का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

1. भारतीय गृहस्थों के पास नषिकरयि पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना
2. स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफ.डी.आई. (FDI) को प्रोत्साहति करना
3. स्वर्ण-आयात पर भारत की नरिभरता में कमी लाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)